

भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय केंद्र, मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)

□गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं फसलोत्तर प्रबंधन□

विषय पर मॉडल ट्रेनिंग कोर्स का आयोजन

भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय केंद्र पर प्रसार निदेशालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित आठ दिवसीय मॉडल ट्रेनिंग कोर्स □गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन, प्रमाणीकरण एवं फसलोत्तर प्रबंधन□ का आयोजन दिनांक 12-19 दिसम्बर, 2017 की अवधि में हुआ। संस्थान के निदेशक डॉ एस के चक्रवर्ती ने दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश के विभिन्न दस राज्यों – उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, ओड़ीशा एवं पश्चिमी बंगाल के कृषि एवं उद्यान विभागों के 21 अधिकारियों ने भाग लिया। संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने केंद्र पर संचालित आलू अनुसंधान से संबन्धित गतिविधियों एवं अनुसंधानिक उपलब्धियों के बारे में बताया और प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक व्याख्यानों पर विस्तृत जानकारी प्रशिक्षार्थियों को दी। अपने उद्घाटन संबोधन में समारोह के मुख्य अतिथि डॉ एस के चक्रवर्ती ने प्रतिभागी प्रशिक्षार्थियों को देश में आलू के वर्तमान और भविष्य के परिदृश्य और संस्थान में संचालित आलू अनुसंधान से संबन्धित गतिविधियों के विषय में विस्तार से बताया। डॉ चक्रवर्ती ने प्रतिभागियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाले गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों के सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक व्याख्यानों में बताई गई तकनीकों को सीखकर अपने-अपने राज्यों में गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन करके देश में बीज की मांग को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करने का आह्वान किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान गुणवत्तायुक्त बीज आलू उत्पादन से संबन्धित महत्वपूर्ण विषयों – आलू की महत्वपूर्ण प्रजातियों, आलू बीज उत्पादन की सस्य क्रियाएं, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, सिंचाई की उन्नत तकनीक, यांत्रिकरण, फसल संरक्षण की उन्नत तकनीक एवं उनका प्रबंधन, बीज प्रमाणीकरण, फसलोपरांत प्रबंधन, आलू उत्पादन का अर्थशास्त्र एवं विपणन, आलू बीज आपूर्ति प्रणाली आदि विषयों पर सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक व्याख्यानों का आयोजन इस केंद्र, मुख्यालय एवं संबन्धित प्रतिष्ठित संस्थानों के विषय विशेषज्ञों द्वारा किया गया। प्रशिक्षार्थियों के ज्ञानवर्द्धन के लिए दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 को कृषि विज्ञान केंद्र, हस्तिनापुर पर भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 को किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ बीरपाल सिंह और अध्यक्षता मुख्यालय से पधारे डॉ एन.के. पाण्डेय, अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संभाग ने की। केंद्र के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन का संक्षिप्त परिचय दिया। मुख्य अतिथि ने अपने सम्बोधन में कहा कि आलू बीज उत्पादन एवं संबन्धित विषयों पर अनुसंधान किसानों की आवश्यकतानुसार करने

चाहिए। मुख्य अतिथि ने उपस्थित प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बताई गई गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन की तकनीकों को अपने राज्यों के बीज उत्पादन कार्यक्रम में अपनाकर गुणवत्तायुक्त बीज किसानों को उपलब्ध कराकर लाभान्वित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए।

